



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 1979/आश्विन 19, 1901

No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 1979/ASVINA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

(कापीराइट कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1979

क्र. आ. 580 (अ).—कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा श्री आर. जी. दुसार्ई के स्थान पर श्री बी. सी. श्रीनिवासन, सचिव, विधि तथा संसदीय कार्य विभाग, कर्नाटक सरकार को कापीराइट बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। श्री बी. सी. श्रीनिवासन, कापीराइट बोर्ड के शेष कार्यकाल तक जो कि 23 सितम्बर, 1980 को समाप्त होगा, अथवा

उस समय तक, जब तक वे कर्नाटक सरकार के अधीन अपने वर्तमान पद पर रहेंगे जो भी तारीख पहले हो, इस पद पर रहेंगे।

[संख्या एफ. 4-11/76-सी.ओ.]

वैदेन्द्र नाथ मिश्र, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Department of Education)

COPYRIGHT OFFICE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1979

S.O. 580(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri B. C. Srinivasan, Secretary, Department of Law and Parliamentary Affairs, Government of Karnataka, as Member of the Copyright Board vice Shri R. G. Desai. Shri B. C. Srinivasan shall hold office for the remaining term of the Copyright Board which is to expire on the 23rd September, 1980 or till the date he holds his present office under the Government of Karnataka, whichever date is earlier.

[No. F. 4-11/76-C.O.]

D. N. MISRA, Jt. Educational Adviser